



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षासदन, 17, इन्स्टिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली-110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

“ShikshaSadan”, 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./नि. (शै.अ.प्र.न.)/2014

दिनांक: 03 अगस्त, 2014

परिपत्र संख्या-अका. 24/2014

के.मा.शि.बो. से संबद्धता प्राप्त
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेखन श्रृंखला

प्रिय प्रधानाचार्य,

बोर्ड शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रति सर्वदा कटिबद्ध रहा है और विद्यालयों में रचनात्मक एवं सहयोगात्मक परिवेश का भी दृढ़ समर्थक रहा है। बोर्ड यह मानता है कि आज की पीढ़ी को ऐसी स्त्रियों एवं पुरुषों के साहसिक एवं निःस्वार्थ कार्यों को जानना चाहिए, जिन्होंने देश की सेवा की हो।

केमाशिबो एक लेखन श्रृंखला की घोषणा कर रहा है, जिसके अंतर्गत यह श्री पिंगली वैकैया के प्रेरणात्मक जीवन पर लेख लिखने हेतु छात्रों की प्रविष्टियों को आमंत्रित कर रहा है। यह लेखन श्रृंखला 5 अगस्त से 11 अगस्त, 2014 तक संचालित की जाएगी। ये प्रविष्टियाँ अंग्रेजी, हिंदी एवं तेलगू में आमंत्रित हैं। अभ्यास सत्र 4 अगस्त को संचालित किया जाएगा जिसके माध्यम से प्रतियोगी इस गतिविधि से अवगत हो सकेंगे। विजेताओं की घोषणा 12 अगस्त 2014 को की जाएगी एवं उन्हें 14 अगस्त 2014 को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा।

यह गतिविधि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही विधियों से संचालित की जाएगी। यह केवल एक प्रतियोगात्मक गतिविधि ही नहीं है, बल्कि छात्रों को ब्लॉग, विकी आदि के माध्यम से एक-दूसरे से सीखने का एक अवसर भी प्रदान करेगी। फेसबुक एवं ट्वीटर जैसे सामाजिक माध्यमों का उपयोग प्रविष्टियों को लोकप्रियता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। साथ ही आपसी वोटों द्वारा विजेता प्रविष्टियों के चयन में भी इसका उपयोग किया जाएगा। श्री पिंगली वैकैया से संबंधित एक नया विषय प्रतिदिन घोषित किया जाएगा और उनमें से 68 सर्वोत्तम प्रविष्टियों को 5,000 रुपयों का पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। समस्त प्रतिभागियों को ऑन लाइन भागीदारी का भी एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। निर्णायक 6+ 8 विजेता (6 लोकप्रिय पसंद के आधार पर + 8 विशिष्ट पैल द्वारा चयनित) दिल्ली की विरासत को देखने लिए समस्त व्यय मुक्त दिल्ली भ्रमण भी जीतेंगे। प्रत्येक विजेता को 20,000 रु का पुरस्कार भी मिलेगा।

जो ऑनलाइन भाग ले रहे हैं वे अपने उत्तर 4 अगस्त 2014 से प्रारंभ होने वाले लिंक www.cbseacademic.in के माध्यम से सीधे प्रविष्ट कर सकते हैं। यह गतिविधि स्कूलों द्वारा ऑफलाइन आयोजित की जा सकती है एवं प्रविष्टियों को cbsewriting@gmail.com के माध्यम से भेजा जा सकता है। प्रविष्टियों को मोबाईल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। विस्तृत जानकारी हेतु अनुबन्ध I-III में दिए गए निर्देशों को देखें।

अधिक जानकारी हेतु शोध अधिकारी (तकनीकी) श्री नवीन मैनी से फोन न. 011-23211575 अथवा ईमेल navincbse@gmail.com से संपर्क कर सकते हैं।

धन्यवाद

हस्ताक्षरित/-

डॉ. साधना पाराशर

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्सटिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28 कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 सभी क्षेत्रीय निदेशक के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ
- 11 सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 12 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 13 के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
- 14 सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 15 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 16 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 17 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
- 18 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 19 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 20 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 21 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 22 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
- 23 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 24 प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
- 25 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक
- 26 निदेशक (एडुसैट) के निजी सहायक

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)